



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 143]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 2, 2001/फाल्गुन 11, 1922

No. 143]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 2001/PHALGUNA 11, 1922

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2001

का. आ. 194(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग, अर्थात् महाराष्ट्र राज्य के भान्द्रा जिले में ग्राम कर्धा के निकट 491/0 कि.मी. पर वेनगंगा नदी के ऊपर मेजर पुल (जिसे इसमें इसके पश्चात् पुल कहा गया है) और रा. रा.-6 के नागपुर रायपुर खंड के 485/0 से 498/0 कि.मी. तक पर इसके पहुँच मार्गों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्ध और उन्हें चालू रखने में अन्तर्बलित व्यय, विनिहित पूँजी पर ब्याज, विनिहित पूँजी पर युक्ति युक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा तथा मैसर्स अशोक बिल्डकोन लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 1/2 द्विवरव्यू, अशोक स्तंभ, नासिक (जो उद्यमी है) और मैसर्स जायसवाल अशोक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एफ 8, एम आई डी सी, नागपुर में है, के साथ हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित करती है कि यांत्रिक यानों पर, पुल के उपयोग के लिए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्गृहीत की जाएगी और उसका संदाय किया जाएगा तथा उक्त मैसर्स अशोक बिल्डकोन लिमिटेड या उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को तारीख 3 मार्च, 2001 से 15 अगस्त 2017 (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

(पुल के उपयोगकर्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें)

क्रम सं.	यान की विशिष्टियां	फीस की दर प्रतियान प्रति ट्रिप (रुपयों में)
1	2	3
1.	मोटर साइकिल, स्कूटर या यांत्रिकी रूप से नोदन करने वाला कोई अन्य दोपहिया यान	शून्य
2.	मोटरकार, टैक्सी, जीप, पिकअपवैन स्टेशन वैन, टेम्पो, आटोरिक्षा, तिपहिया स्कूटर या अन्य आटोचालित हल्के यान, चाहे वे ट्रेलर के साथ हों या उसके बिना हों	10.00
3.	बस	50.00

1	2	3
4.	दो एक्सल वाले ट्रक और अन्य भारी यान	50.00
5.	दो से अधिक एक्सल वाले ट्रक, ट्रेलर और ऐसे अन्य यांत्रिकी रूप से नोदन करने वाले यान, जो ऊपर वर्णित नहीं हैं जैसे मोबाइल क्रेन, डोजर, अर्थ मूवर, रोलर आदि, चाहे वे लदे हों या न लदे हों	80.00

टिप्पण :—1. जब किसी यान को एक ही दिन में एक बार से अधिक पुल पार करनी हो तो, उपयोक्ता के पास पहली ट्रिप में पुल पार करते समय ऊपर दी गई दर से डेढ़ गुणा संदाय करने का विकल्प होगा या यदि यान को पूरे भास या और अधिक लम्बी अवधि के लिए निरंतर और बार बार पुल पार करना हो तो यान का स्वामी, अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उसे लागू एकल दर से पैंतालिस गुणा प्रभार का संदाय करके मासिक पास ले सकेगा ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्राप्त है अर्थात् :—

- (i) रक्षा यान
- (ii) अतिविशिष्ट व्यक्ति प्रतीक सहित यान
- (iii) पुलिस यान
- (iv) अग्नि शमन यान
- (v) एम्बुलेंस
- (vi) शव वाहन
- (vii) केन्द्रीय और राज्य सरकार के यान

3. निम्नलिखित से संबंधित शासकीय यान अतिविशिष्ट व्यक्ति प्रतीक युक्त यान समझे जाएंगे; अर्थात् :—

- (i) भारत के राष्ट्रपति,
- (ii) भारत के राज्यपाल,
- (iii) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मंत्री,
- (iv) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं में विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री के समान है,
- (v) राज्यों के राज्यपाल,
- (vi) संघ राज्य क्षेत्रों के लेफ्टीनेंट गवर्नर
- (vii) केन्द्रीय और राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष
- (viii) स्थानीय निर्वाचित निकायों के कार्यपालक पार्षद
- (ix) भारत में राजकीय दौरों पर विदेशी उच्च पदस्थ;
- (x) सी डी विन्ह वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में तैनात विदेशी राजनयिक।

3. उपरिवर्णित दरें, पुल के आसपास और पथ कर संग्रहण बूथों के निकट सहज दृश्य स्थानों पर खड़े किए गए बोर्डों पर प्रदर्शित की जाएंगी इस अधिसूचना के अधीन फीस की वसूली के प्रत्येक अवसर पर उक्त मैसर्स अशोक बिल्डकोन लिमिटेड या इस का विधिक प्राधिकृत प्रतिनिधि संदाय-कर्ता को रसीद जारी करेगा।

[सं. आर. डब्ल्यू./एन.एच-12013/14/97-डब्ल्यू. (महा)]

एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Roads Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2001

S. O. 194(E).— In exercise of the powers conferred by sections 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) , the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the part of National Highway, that is, Major bridge across Wainganga River at km. 491/0 near village Kardha and its approaches from km. 485/0 to 498/0 of Nagpur-Raipur Section of NH 6 in Bhandara District of Maharashtra State (hereinafter referred as the bridge) , interest on the capital invested, reasonable return on the capital invested, the volume of traffic and the period of agreement entered into with M/s Ashoka Buildcon Limited having its registered office at 1/2 River View, Ashok Stambh, Nashik (being the entrepreneur) and M/s Jaiswal's Ashoka Infrastructure Pvt. Limited having its registered office at F-8, M.I.D.C, Nagpur, hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles for the use of the bridge at the rates specified in the Schedule annexed hereto and authorizes the said M/s. M/s Ashoka Buildcon Limited or its authorised legal representative to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule from 3rd March, 2001 to 15th August, 2017 (both days inclusive).

SCHEDULE

(Rates of fee to be recovered from users of the bridge)

Sl No.	Categories of vehicles	Fee rates in Rs per Vehicle per trip
1.	Motor cycle, Scooter or any other two-wheeler mechanically propelled vehicle.	NIL
2.	Motor Car, Taxi, Jeep, Pick-up Van, Station Wagon, Tempo, Auto-rickshaw, three-wheeler Scooter or other auto-driven light vehicle with or without trailer.	10.00
3.	Bus.	50.00
4.	Truck and other heavy vehicles having two axles.	50.00
5.	Truck having more than two axles, trailer and other mechanically propelled vehicles not mentioned above like mobile crane, dozer, earth mover, roller, etc., loaded or unloaded.	80.00

NOTES :

1. When the same vehicle has to cross the bridge more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the bridge in the first trip itself or if the vehicle has to use the bridge continuously and quite frequently for the entire month or even beyond that for much longer period, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to forty five single rates applicable to it as specified in the Schedule.
2. Following type of vehicles are exempted from the fees specified in the Schedule, namely:-
 - (i) Defence vehicles,
 - (ii) Vehicles with Very Important Persons symbols,
 - (iii) Police Vehicles,
 - (iv) Fire Fighting Vehicles,
 - (v) Ambulances,
 - (vi) Funeral Vans,
 - (vii) Central and State Government Vehicles.
3. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having Very Important Person symbols, namely:-
 - (i) President of India,
 - (ii) Vice-President of India,
 - (iii) Central and State Minister,
 - (iv) Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha, or a State Legislatures having the status of Cabinet Minister,
 - (v) Governors of States,
 - (vi) Lieutenant Governors of Union Territories,
 - (vii) Speakers or Chairmen of Central and State Legislatures,
 - (viii) Executive Councillors of Local Elected Bodies,
 - (ix) Foreign dignitaries on State visit to India,
 - (x) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD symbols.
4. The above mentioned rates shall be displayed on a board erected at conspicuous places in the vicinity of the bridge and near the toll collection booths. The said M/s Ashoka Buildcon Limited or its authorised legal representatives shall give a receipt to the payer on each and every occasion of recovery of fee under this notification.

[No. RW/NH-12013/14/97-W (Mah)]

S. C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.